





TYPE - A
PENTHOUSE UPPER FLOOR PLAN



TYPE - A
UPPER PENT HOUSE
FLOOR AREA DIAGRAM

48) बाहरी को अतिरिक्त कमरा कम कर दिया गया है।
49) बाहरी को अतिरिक्त कमरा कम कर दिया गया है।
50) बाहरी को अतिरिक्त कमरा कम कर दिया गया है।

UPPER DUPLEX-TOWER 3,4,5,6,7 & 8				
ADDITION	L	W	NOS	AREA (SQM)
A	4.500	0.715	2	= 6.521
B	4.500	4.990	2	= 44.982
C	11.680	4.315	2	= 100.788
D	10.355	4.960	2	= 102.722
E	25.559	5.475	1	= 139.936
F	0.530	0.265	2	= 0.281
G	0.533	0.265	2	= 0.282
H	4.160	1.615	2	= 13.437
I	0.530	0.265	2	= 0.281
K	0.478	0.300	2	= 0.287
L	1.800	0.850	2	= 3.060
M	2.400	1.000	2	= 5.202
N	0.910	0.250	2	= 0.482
P	12.880	4.730	1	= 60.922
Q	11.590	0.600	1	= 6.954
R	0.115	3.950	1	= 0.454
S	4.060	0.945	1	= 3.837
T	0.615	0.350	2	= 0.431
U	1.480	0.265	2	= 0.784
V	9.160	0.400	1	= 3.664
TOTAL				= 489.377
DEDUCTION				
1	4.215	0.600	2	= 5.058
2	2.185	0.615	2	= 2.688
3	6.880	4.085	2	= 56.210
4	1.915	2.415	2	= 9.249
5	3.015	4.500	2	= 27.135
6	0.240	0.150	2	= 0.072
7	0.418	0.150	2	= 0.125
8	4.400	4.730	2	= 41.674
9	2.250	4.250	2	= 19.125
10	3.700	1.615	2	= 11.951
11	0.300	0.150	2	= 0.090
12	0.363	0.185	2	= 0.134
13	1.685	0.735	2	= 2.477
14	0.680	0.150	2	= 0.204
15	1.315	1.520	2	= 3.996
16	0.500	1.500	1	= 0.750
17	2.100	3.800	1	= 7.980
18	1.000	2.000	1	= 2.000
19	3.050	0.865	2	= 5.277
20	3.050	1.900	2	= 11.590
21	6.755	4.085	2	= 55.188
22	1.250	0.150	2	= 0.375
23	0.385	0.250	2	= 0.193
24	3.050	0.600	1	= 2.290
25	3.200	0.300	1	= 0.960
26	0.685	0.415	1	= 0.284
27	1.035	0.415	1	= 0.430
TOTAL				= 267.482
TOTAL AREA (A-B)				= 227.895

UPPER PENTHOUSE-B BLOCK (15% SERVICES AREA)				
DEDUCTION	L	W	NO.	AREA (SQM)
a1	0.115	0.715	4	= 0.329
a2	4.215	0.115	2	= 0.969
a3	0.230	0.715	2	= 0.329
a4	4.250	0.100	2	= 0.850
a5	0.115	0.250	10	= 0.285
a6	0.250	0.115	4	= 0.115
a7	0.615	0.115	2	= 0.141
a8	3.800	0.115	1	= 0.440
a9	0.115	0.150	4	= 0.069
a10	0.500	0.115	2	= 0.112
a11	0.418	0.115	2	= 0.096
a12	0.300	0.115	2	= 0.069
a13	0.115	0.185	2	= 0.043
a14	2.278	0.115	2	= 0.524
a15	0.115	0.735	2	= 0.169
a16	0.680	0.115	2	= 0.156
a17	0.115	1.635	2	= 0.378
a18	1.430	0.115	2	= 0.329
a19	3.500	1.250	1	= 4.375
a20	1.250	2.000	2	= 5.000
a21	3.500	1.480	1	= 5.180
a22	0.100	0.400	2	= 0.080
a23	8.960	0.100	1	= 0.896
TOTAL AREA (15% SERVICES AREA)				= 30.363
F.A.R				= 207.332

OPENING SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS				
S.NO.	TYPE	SIZE	CILL	LINTEL
1	DW1	3000	00/00	B.O.B
2	DW2	2100	00/00	B.O.B
3	DW3	1300	00/00	B.O.B
4	DW4	4500	00/00	B.O.B
5	DW5	2400	00/00	B.O.B
6	DW6	800	00/00	B.O.B
7	DI	1050	-	2100
8	DI	900	-	2100
9	DI	800	-	2100
10	DI	800	-	2100
11	DI	1000	-	2100
12	W1	2400	1000	2100
13	W2	600	1000	B.O.B
14	W3	2100	1000	B.O.B
15	W4	1320	1000	B.O.B
16	W5	1000	1000	B.O.B
17	W6	2000	1000	B.O.B
18	DW	1315	1200	B.O.B

SUBMISSION DRAWING

SHEET TITLE: TOWER NO. 3,4,5,6,7 & 8
(TYPE-A) FLOOR PLANS

OWNER: M/s NOBILITY ESTATES PVT. LTD.
PLOT NO.-SC-01/C-A1 OF SPORT CITY
PLOT NO.-SC-01/C, SECTOR 150, NOIDA.

PROJECT: AT'S LE GRANDIOSE
PLOT NO.-SC-01/C-A1 OF SPORT CITY
PLOT NO.-SC-01/C, SECTOR 150, NOIDA.

ARCHITECT'S SIGNATURE: *Saurav Jod*
Ar. Saurav Jod
CA/2011/52050

OWNER'S SIGNATURE: *Saurav Jod*
Nobility Estates Private Limited
Authorised Signatory

DEALT BY: SCALE: 1:100
CHECKED BY: DATE: 29-07-2016
DNO NO: NORTH